

## अध्याय-4

### छुट्टी का दिन

#### 1. दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करें ।

- (क) छुटकू बंदर घर के अंदर टीवी देख रहा था । (बंदर/हाथी)  
(ख) बिल्ली ने आइसक्रीम खिलाने के लिए कहा। (आइसक्रीम /पकौड़े)  
(ग) नन्हा हाथी क्रिकेट खेल रहा था. (क्रिकेट / फुटबॉल)  
(घ) चिड़िया चॉकलेट केक खा रही थी। ( चिड़िया/ गिलहरी)

#### 2. जंगल के ये पशु पक्षी छुट्टी के दिन क्या कर रहे होंगे?

- (क) शेर -जानवरों का शिकार कर रहा है।  
(ख) तोता- तोता चना खा रहा है।  
(ग) गधा - गधा सो रहा है ।  
(घ) मछली- तालाब में मछली तैर रही है।

#### 3. नीचे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को निम्न तालिका में सही स्थान पर लिखें।

[ दादा, मोरनी, नाना ,शेरनी ,दादी, भाई, नानी, बूढ़ा ,चाचा ,बहन,लड़की, मोर ,शेर, बुढ़िया ,चाची ,लड़का]

पुल्लिंग शब्द	स्त्रीलिंग शब्द
दादा	दादी
मोर	मोरनी
नाना	नानी
बूढ़ा	बुढ़िया
चाचा	चाची
भाई	बहन
लड़का	लड़की
शेर	शेरनी

4. नीचे पशु -पक्षियों, स्थानों ,शरीर के अंगों, वस्तुओं आदि के चित्र दिए गए हैं। इनके सही नाम पहचान कर तालिका में सही जगह पर लिखें।

{ 🏀 , 🍌 , 🍰 , 🏠 , 🖐️ , 🐦 , 🐻 , 🐔 , 🐘 }

### चित्रों के नाम

पशु पक्षी स्थान वस्तुएँ शरीर के अंग

हाथी , मोर , ताजमहल , बॉल , हाथ

भालू , गौरैया, घर , केक , नाक

### 5 . प्रश्नों का उत्तर

(क) कौन आइसक्रीम खा रहा था?

उत्तर- बिल्ली आइसक्रीम खा रही थी।

(ख) छुट्टी के दिन कौन नाच रहा था?

उत्तर- छुट्टी के दिन मोर नाच रहा था।

(ग) धूप कौन सेंक रहा था?

उत्तर -भालू धूप सेंक रहा था।

(घ) चिड़िया क्या-क्या खा रही थी?

उत्तर – चिड़िया चॉकलेट और केक खा रही थी ।

(ङ) क्रिकेट कौन खेल रहा था?

उत्तर- क्रिकेट नन्हा हाथी खेल रहा था।

(च) छुट्टी का दिन बाकी दिनों से कैसे अलग होता है?

उत्तर- छुट्टी का दिन बाकी दिनों से सबसे अलग होता है क्योंकि छुट्टी बोलने से सभी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं कि आज मैं क्या - क्या करूंगा। मनुष्य हो या जानवर सभी अपना प्लान पहले से बनाने लगते हैं और स्वतंत्र होकर खूब मस्ती या मज़े करते हैं।